



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26082023-248355
CG-DL-W-26082023-248355

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 26—सितम्बर 1, 2023 (भाद्र 4, 1945)
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 26—SEPTEMBER 1, 2023 (BHADRA 4, 1945)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	585	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	789	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	11	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2249	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	1569
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	183
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	3099
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	585	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	789	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	11	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2249	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1569
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	183
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	3099
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-01, दिनांक 27 जुलाई 2023

सं. 9-19/2000-यू3 (ए) पार्ट.1—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किसी उच्च शिक्षण संस्थान को यूजीसी की सलाह पर सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस मंत्रालय द्वारा यूजीसी की सलाह पर अपनी अधिसूचना संख्या 9-19/2000-यू.3, के दिनांक 13.04.2006 के तहत केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम, कर्नाटक, जिसमें (i) जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, बेलगाम और (ii) केएलई बीके इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, बेलगाम शामिल हैं, को पांच वर्ष की अवधि के लिए सम-विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया गया था।

3. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.02.2009 की अधिसूचना संख्या 9-19/2000-यू.3 के तहत निम्नलिखित संस्थानों को केएलई अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम के दायरे में लाया गया था, बशर्ते कि केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी:

- i. केएलई इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज, बेलगाम;
- ii. केएलई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, बेलगाम;
- iii. केएलई श्री बी.एम.के आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगाम;
- iv. केएलई कॉलेज ऑफ फार्मसी, बेलगाम;
- v. केएलई कॉलेज ऑफ फार्मसी, हुबली;
- vi. केएलई कॉलेज ऑफ फार्मसी, बैंगलोर।

4. और जबकि, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी की सलाह पर दिनांक 17.01.2017, 02.07.2018 और 06.05.2019 की अधिसूचना संख्या 9-19/2000-यू3(ए)पार्ट.1 द्वारा केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम का सम-विश्वविद्यालय का दर्जा दिनांक 18.01.2021 तक बढ़ा दिया गया।

5. और इसके बाद जबकि, केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम ने सम-विश्वविद्यालय का दर्जा बढ़ाने/जारी रखने के लिए अनुरोध किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के उपबंधों के अनुसार, दिनांक 27.06.2023 को आयोजित अपनी 570वीं बैठक (मद संख्या 2.05) में संस्थान के अनुरोध पर विचार किया और केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम, कर्नाटक के सम-विश्वविद्यालय दर्जे का विस्तार करने/जारी रखने के लिए सलाह दी।

6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, दिनांक 19.01.2021 से केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम, कर्नाटक के सम-विश्वविद्यालय का दर्जा बढ़ाता है।

7. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर जारी किए गए मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य वैधानिक परिषदों के नियमों/विनियमों/निर्देशों का केएलई अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम, कर्नाटक द्वारा पालन किया जाना जारी रहेगा।

अंबरीश कुमार शर्मा
अवर सचिव

सं. 9-48/2005-यू3 —जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किसी उच्च शिक्षण संस्थान को यूजीसी की सलाह पर सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस मंत्रालय द्वारा यूजीसी की सलाह पर अपनी अधिसूचना संख्या 9-48/2005-यू.3, दिनांक 19.12.2008 के तहत, विज्ञान शास्त्र प्रौद्योगिकी और परिशोधन संगठन, वडलामुडी, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश को पांच वर्ष की अनंतिम अवधि के लिए सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया गया था।

3. और जबकि, मंत्रालय द्वारा यूजीसी की सलाह पर अधिसूचना संख्या 9-48/2005-यू.3, दिनांक 15.02.2019 के तहत विज्ञान शास्त्र प्रौद्योगिकी और परिशोधन संगठन, वडलामुडी, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश का सम विश्वविद्यालय का दर्जा निम्नलिखित शर्तों के साथ दिनांक 19.12.2013 से 30.06.2021 तक बढ़ा दिया गया:-

- I. संस्थान अपने एच-इंडेक्स और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) के सीजीपीए स्कोर के साथ-साथ एनआईआरएफ रैंकिंग में भी सुधार करेगा।
- II. सम विश्वविद्यालय संस्थान संबंधित विषयों में वरिष्ठ स्तर के संकाय (प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर) की भर्ती करेगा।
- III. सम विश्वविद्यालय संस्थान पाठ्यक्रम का बोझ कम करेगा।
- IV. सम विश्वविद्यालय संस्थान अपनी प्रयोगशालाओं का उन्नत उपकरणों के साथ उन्नयन करेगा।
- V. सम विश्वविद्यालय संस्थान छात्रों के लिए पर्याप्त छात्रावास सुविधाएं प्रदान करेगा।
- VI. सम विश्वविद्यालय यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा बताए गए सुझावों/कमियों के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

4. और इसके अलावा जबकि, विज्ञान शास्त्र प्रौद्योगिकी और परिशोधन संगठन, वडलामुडी, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश ने सम विश्वविद्यालय का दर्जा बढ़ाने/जारी रखने के लिए अनुरोध किया था। यूजीसी ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार 27.06.2023 को आयोजित अपनी 570वीं बैठक (मद सं. 2.05) में संस्थान के अनुरोध पर विचार किया और विज्ञान शास्त्र प्रौद्योगिकी और परिशोधन संगठन, वडलामुडी, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश को सम विश्वविद्यालय के दर्जे का विस्तार करने/जारी रखने की सलाह दी।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, दिनांक 01.07.2021 से विज्ञान शास्त्र प्रौद्योगिकी और परिशोधन संगठन, वडलामुडी, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश का सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा बढ़ाता है।

6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर जारी किए गए मंत्रालय, यूजीसी और अन्य वैधानिक परिषदों के नियमों/विनियमों/निर्देशों का विज्ञान शास्त्र प्रौद्योगिकी और परिशोधन संगठन, वडलामुडी, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश द्वारा पालन किया जाना जारी रहेगा।

अंबरीश कुमार शर्मा
अवर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-01, the 27th July 2023

No. 9-19/2000-U3(A)Pt.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, this Ministry, vide Notification No. 9-19/2000-U.3 dated 13.04.2006, on the advice of UGC, had declared KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum, Karnataka, comprising (i) Jawaharlal Nehru Medical College, Belgaum and (ii) KLE BK Institute of Dental Sciences, Belgaum, as an institution deemed to be University, for a period of five years.

3. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the following institutions were brought under ambit of KLE Academy of Higher Education and Research, Belgaum, by this Ministry, vide Notification No. 9-19/2000-U.3 dated 20.02.2009, subject to the conditions that all the terms & conditions of conferment of deemed to be university status to KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum shall remain unchanged:

- I. KLE Institute of Nursing Sciences, Belgaum;
- II. KLE Institute of Physiotherapy, Belgaum;
- III. KLE Shri B.M.K Ayurveda Mahavidyalaya, Belgaum;
- IV. KLE College of Pharmacy, Belgaum;
- V. KLE College of Pharmacy, Hubli;
- VI. KLE College of Pharmacy, Bangalore.

4. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act 1956, the Central Government, vide Notification Nos. 9-19/2000-U3(A)Pt.1 dated 17.01.2017, 02.07.2018 & 06.05.2019, on the advice of UGC, extended the deemed to be University status of KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum upto 18.01.2021.

5. And further whereas, KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum made a request for extension /continuation of Institution Deemed to be University status. UGC considered the request of the Institution in its 570th meeting (Item No.2.05) held on 27.06.2023 as per the provisions of the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 and advised for extension/continuation of Institution Deemed to be University status of KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum, Karnataka.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, this Ministry, on the advice of UGC, hereby extends the deemed to be University status of KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum, Karnataka from 19.01.2021 onwards.

7. All the other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations / directions of the Ministry, UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum, Karnataka.

AMBRISH KUMAR SHARMA
Under Secretary

No. 9-48/2005-U3—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, this Ministry, vide its Notification No. 9-48/2005-U.3 dated 19.12.2008, on the advice of UGC, had declared Vignan's Foundation for Science, Technology and Research, Vadlamudi, Guntur Dist., Andhra Pradesh as an Institution deemed to be University for a provisional period of five years.

3. And whereas, the Ministry, vide Notification No. 9-48/2005-U.3 dated 15.02.2019, on the advice of the UGC, extended the Institution Deemed to be University status of Vignan's Foundation for Science, Technology and Research, Vadlamudi, Guntur Dist., Andhra Pradesh from 19.12.2013 to 30.06.2021 with the following conditions:

- i. The Institution shall improve its H-Index and CGPA Score of National Assessment and Accreditation Council (NAAC) as well as NIRF Rankings.
- ii. The Institution Deemed to be University shall recruit senior level faculty (Professor & Associate Professor) in the respective disciplines.
- iii. The Institution Deemed to be University shall reduce the burden of the Curriculum.
- iv. The Institution Deemed to be University shall upgrade its laboratories with advanced equipments.
- v. The Institution Deemed to be University shall provide adequate hostel facilities for the students.
- vi. The deemed to be University shall submit compliance report w.r.t. suggestions/deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

4. And further whereas, Vignan's Foundation for Science, Technology and Research, Vadlamudi, Guntur Dist., Andhra Pradesh made a request for extension /continuation of deemed to be University status. UGC considered the request of the Institution in its 570th meeting (Item No.2.05) held on 27.06.2023 as per the provisions of the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 and advised for extension/continuation of deemed to be University status of Vignan's Foundation for Science, Technology and Research, Vadlamudi, Guntur Dist., Andhra Pradesh.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, this Ministry, on the advice of UGC, hereby extends the Institution Deemed to be University status of Vignan's Foundation for Science, Technology and Research, Vadlamudi, Guntur Dist., Andhra Pradesh from 01.07.2021 onwards.

6. All the other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations / directions of the Ministry, UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Vignan's Foundation for Science, Technology and Research, Vadlamudi, Guntur Dist., Andhra Pradesh.

AMBRISH KUMAR SHARMA

Under Secretary